

आयुर्वेदिक कांस्य थाली फुट थेरेपी

10 मिनट स्वास्थ्य के लिए

- निद्रा की समस्या नियन्त्रण में रखने के लिए
- घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द
ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए
- पैरों की सूजन कम करने के लिए
- मोबाइल, कंप्यूटर से आने वाली आँखों की थकान दूर करने के लिए
- शरीर में (वात पित्त कफ की मात्रा) नियंत्रित करने के लिए |
- शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नियमित करने के लिए
- आँखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर काले धब्बे कम करने के लिए |
- आँखों की मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए |
- मधुमह के कारण जोड़ों की संवेदना की हानि को रोकना |
- शरीर में अतिरिक्त गर्मी को कम करने के लिए |
- फाटे तलवे, पैरों की सूजन कम करने के लिए |
- स्पोर्ट्स, जिम, हैवी वर्कआउट, रिलैक्सेशन के लिए उपयोगी |

पारंपरिक विधि



आधुनिक विधि



सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध

Ayurvedic Bronze Thali Foot Therapy

10 minutes to health

- To control sleep problems
- knee pain, heel pain, back pain
- To reduce such problems
- To reduce swelling of feet
- To remove eye fatigue caused by mobile, computer
- To control the amount of Vata, Pitta and Kapha in the body.
- To regulate blood circulation in the body
- To reduce dark circles under the eyes and dark spots on the face.
- To stimulate the eye muscles.
- Preventing loss of sensation in joints due to diabetes.
- To reduce excess heat in the body.
- To reduce cracked soles and swelling of feet.
- Useful for Sports, Gym, Heavy Workout, Relaxation |

Traditional Method



Modern Technology



Available for all age groups